



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 कार्तिक 1940 (श0)
(सं0 पटना 957) पटना, बुधवार, 31 अक्टूबर 2018

सं० 3/एम0-06/2018-14183/स0प्र0
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

26 अक्टूबर 2018

विषय :-विभागीय जाँच आयुक्त के कार्यालय के सुदृढीकरण एवं पुनर्गठन के संबंध में।

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों एवं एतदसंबंधी समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किसी कदाचार के लिए संबंधित सरकारी सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई संचालित की जाती है। कदाचार से संबंधित प्रतिवेदित आरोप-पत्र में निहित आरोपों की समुचित जाँच हेतु संचालित विभागीय कार्यवाही का नियमानुकूल संचालन, समयबद्ध निष्पादन एवं प्रभावी अनुश्रवण किया जाना आवश्यक है। एतदर्थ एक सुदृढ एवं प्रभावी तंत्र विकसित किये जाने की आवश्यकता है।

2. इस क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश ज्ञापांक-13639 दिनांक 10.10.2018 द्वारा विभागीय जाँच आयुक्त कार्यालय के लिए निम्नांकित पदों का सृजन किया गया है-

क्र० सं०	पदनाम	सेवा/सम्बर्ग	वेतन स्तर	पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1.	मुख्य जाँच आयुक्त	—	(मात्र पदनाम परिवर्तन में कोई वित्तीय व्ययभार नहीं है)।	—	विभागीय जाँच आयुक्त का पदनाम मुख्य जाँच आयुक्त किया जाना है।
2.	जाँच आयुक्त	—	(मात्र पदनाम परिवर्तन में कोई वित्तीय व्ययभार नहीं है)।	—	अपर विभागीय जाँच आयुक्त का पदनाम जाँच आयुक्त किया जाना है।
3.	विशेष जाँच आयुक्त	बिहार प्रशासनिक सेवा (विशेष सचिव/अपर सचिव स्तर के पदाधिकारी)	लेवल-14/ लेवल-13ए	2	आवश्यकता के आधार पर

क्र० सं०	पदनाम	सेवा/सम्वर्ग	वेतन स्तर	पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
4.	संयुक्त सचिव—सह—संयुक्त जॉच आयुक्त	बिहार प्रशासनिक सेवा	लेवल—13	1	आवश्यकता के आधार पर
5.	उप सचिव	बिहार प्रशासनिक सेवा	लेवल—11	1	आवश्यकता के आधार पर
6.	अवर सचिव	बिहार सचिवालय सेवा	लेवल—11	2	आवश्यकता के आधार पर
7.	उच्च वर्गीय लिपिक	बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा	लेवल—4	3	आवश्यकता के आधार पर
8.	प्रशिक्षण पदाधिकारी	सेवानिवृत्त बिहार प्रशासनिक सेवा (संयुक्त सचिव से अन्यून)/ बिहार सचिवालय सेवा (प्रशाखा पदाधिकारी से अन्यून)	लेवल—13 तक	3	संविदा के आधार पर नियोजन हेतु

4. उक्त आदेश द्वारा विभागीय जॉच आयुक्त एवं अपर विभागीय जॉच आयुक्त का पदनाम परिवर्तित कर क्रमशः **मुख्य जॉच आयुक्त** एवं **जॉच आयुक्त** किया गया है। साथ ही विशेष जॉच आयुक्त के दो पद तथा संयुक्त सचिव—सह—संयुक्त जॉच आयुक्त का एक पद भी सृजित किया गया है।

5. अतः विभागीय जॉच आयुक्त के कार्यालय के सुदृढीकरण एवं पुनर्गठन हेतु सम्यक विचारोपरान्त सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये जाते हैं—

- (i) मुख्य जॉच आयुक्त में विभागाध्यक्ष की शक्ति निहित होगी। मुख्य जॉच आयुक्त कार्यालय का प्रशासनिक नियंत्रण मुख्य जॉच आयुक्त के अधीन होगा।
- (ii) सामान्य प्रशासन विभाग के स्वीकृत्यादेश संख्या—4925 दिनांक 08.05.2008 द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रधान सचिव/सचिव स्तर के अपर विभागीय जॉच आयुक्त के तीन सृजित पदों का नया पदनाम **जॉच आयुक्त** अधिसूचित किया जा चुका है। पदाधिकारियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इन पदों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का पदस्थापन किया जा सकेगा।
- (iii) बिहार प्रशासनिक सेवा के विशेष सचिव/अपर सचिव स्तर के पदाधिकारियों के लिए मुख्य जॉच आयुक्त के कार्यालय में सृजित **विशेष जॉच आयुक्त** के दो पदों पर स्थायी/पूर्णकालिक पदस्थापन किया जायेगा। ऐसे पदाधिकारियों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन का अभिलेखन भी मुख्य जॉच आयुक्त द्वारा किया जायेगा।
- (iv) अधिसूचना संख्या— 4033 दिनांक 24.06.2008 के प्रावधान के आलोक में जहाँ जॉच प्राधिकारी के रूप में मुख्य जॉच आयुक्त की नियुक्ति की गयी हो, वहाँ मुख्य जॉच आयुक्त या तो स्वयं जॉच करेंगे या जॉच का कार्य जॉच आयुक्त को हस्तान्तरित कर सकेंगे। जॉच के ऐसे हस्तान्तरित मामले में संबंधित जॉच पदाधिकारी जॉच प्रतिवेदन सहित जॉच अभिलेख सीधे अनुशासनिक प्राधिकार को प्रेषित करेंगे तथा इसकी सूचना मुख्य जॉच आयुक्त को भी देंगे।
परन्तु यदि किसी मामले में सरकार यह आदेश करे कि मुख्य जॉच आयुक्त ही स्वयं जॉच करें तो ऐसे मामले को उनके द्वारा जॉच हेतु किसी अन्य पदाधिकारी को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।
- (v) मुख्य जॉच आयुक्त द्वारा हस्तान्तरित सभी विभागीय कार्यवाहियों का अनुश्रवण मुख्य जॉच आयुक्त कार्यालय द्वारा किया जायेगा। साथ ही वैसे मामलों, जिनमें अनुशासनिक प्राधिकार/प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी द्वारा सीधे संयुक्त आयुक्त, विभागीय जॉच/अपर समाहर्ता, विभागीय जॉच को जॉच प्राधिकारी नियुक्त किया गया है, में भी संयुक्त आयुक्त, विभागीय जॉच/अपर समाहर्ता, विभागीय जॉच द्वारा विभागीय कार्यवाही के निष्पादन के दायित्व के समुचित निर्वहन का अनुश्रवण मुख्य जॉच आयुक्त द्वारा किया जाएगा और उन पर मुख्य जॉच आयुक्त का प्रशासनिक नियंत्रण रहेगा।
- (vi) मुख्य जॉच आयुक्त कार्यालय द्वारा बिपार्ड के सहयोग से सचिवालय एवं मुफसिल कार्यालयों के सभी जॉच अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करायी जायेगी तथा उनके कार्यों का अनुश्रवण, निष्पादन की समयबद्धता एवं गुणवत्ता की समीक्षा भी की जायेगी।

- (vii) मुख्य जाँच आयुक्त कार्यालय के लिए सृजित प्रशिक्षण पदाधिकारी के पदधारक का दायित्व बिपार्ड के सहयोग से विभागीय कार्यवाही के निष्पादन में सम्मिलित संचालन पदाधिकारी, उपस्थापन पदाधिकारी तथा जिला एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था कराने का होगा।
- (viii) मुख्य जाँच आयुक्त कार्यालय के लिए सृजित बिहार प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव-सह-संयुक्त जाँच आयुक्त का एक पदधारक द्वारा मुख्य जाँच आयुक्त कार्यालय के प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा। संयुक्त सचिव-सह-संयुक्त जाँच आयुक्त मुख्य जाँच आयुक्त द्वारा विभागीय कार्यवाही से संबंधित दिये गये निदेशों का कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण करेंगे। साथ ही विभिन्न विभागों से उनके स्तर पर समन्वय स्थापित करने एवं स्थापना कार्य आदि की जिम्मेवारी उनकी होगी।
- (ix) मुख्य जाँच आयुक्त कार्यालय के उप सचिव विभिन्न विभागों से समन्वय, अनुश्रवण, स्थापना, बजट तथा अपीलीय प्राधिकार (सूचना का अधिकार अधिनियम) आदि कार्यों का निष्पादन करेंगे।
- (x) मुख्य जाँच आयुक्त कार्यालय के लिए सृजित दो अवर सचिव के पदों में से एक अवर सचिव (जाँच एवं प्रशिक्षण) के रूप में पदस्थापित होंगे जो अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा भेजे गये संकल्पों के साथ अभिलेखों आरोप पत्रों की प्रारम्भिक जाँच-पड़ताल एवं समय-समय पर प्राप्त निदेशों का अनुपालन, विभागीय जाँच हेतु समन्वय स्थापित करना एवं विभिन्न विभागों के कर्मियों के प्रशिक्षण आदि का कार्य निष्पादित करेंगे। दूसरे अवर सचिव (प्रशासन) द्वारा स्थापना कार्य, बजट एवं लोक सूचना पदाधिकारी के दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा।
- (xi) मुख्य जाँच आयुक्त कार्यालय के लिए आवश्यकता आधारित डाटा इन्ट्री ऑपरेटर आउटसोर्सिंग के माध्यम से बेल्ट्रॉन द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
- (xii) मुख्य जाँच आयुक्त कार्यालय में पदस्थापित पदाधिकारियों के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के अभिलेखन हेतु सक्षम प्राधिकार निम्नवत् होंगे—

क्रमांक	पदनाम	प्रतिवेदक पदाधिकारी (Reporting Officer)	समीक्षी पदाधिकारी (Reviewing Officer)	स्वीकरण पदाधिकारी (Accepting Officer)
1.	विशेष जाँच आयुक्त	मुख्य जाँच आयुक्त	प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
2.	संयुक्त सचिव-सह- संयुक्त जाँच आयुक्त	मुख्य जाँच आयुक्त	प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
3.	उप सचिव	संयुक्त सचिव-सह- संयुक्त जाँच आयुक्त	मुख्य जाँच आयुक्त	प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
4.	अवर सचिव	उप सचिव	संयुक्त सचिव-सह- संयुक्त जाँच आयुक्त	मुख्य जाँच आयुक्त
5.	प्रशाखा पदाधिकारी	अवर सचिव	उप सचिव	संयुक्त सचिव-सह- संयुक्त जाँच आयुक्त

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सभी विभागीय प्रधान सचिव/ सचिव/विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राजेन्द्र राम,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 957-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>